



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 पौष 1938 (श0)

(सं0 पटना 20) पटना, सोमवार, 9 जनवरी 2017

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद

विद्यापति मार्ग, पटना-800001

अधिसूचना

23 फरवरी 2016

सं0 3813—सार्वजनिक दुर्गा मन्दिर, दुर्गा स्थान, कटिहार पर्वद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-3685 है। इस मन्दिर के सुचारु प्रबंधन हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का प्रथम कानून) की धारा-32 के अन्तर्गत पर्वदीय अधिसूचना ज्ञापांक-809, दिनांक 13.09.2014 द्वारा एक योजना का निरूपण किया गया था तथा इसके कार्यान्वयन के लिए सात सदस्यीय न्यास समिति गठित की गयी थी। न्यास समिति के सदस्यों के बारे में सूचना मिली थी कि इसमें कुछ सदस्य राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। अतः पर्वदीय पत्रांक-856, दिनांक 20.09.2014 द्वारा न्यास समिति के गठन को स्थगित किया गया था। साथ ही न्यास समिति के स्थगित रहने के कारण उत्पन्न शून्यता की स्थिति में जिला पदाधिकारी, कटिहार को अस्थायी न्यासधारी बनाया गया था।

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम में अस्थायी का कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष का होता है और यह अवधि पूरी हो चुकी थी, अतः पर्वदीय पत्रांक-2945 दिनांक 14.12.2015 द्वारा जिला पदाधिकारी, कटिहार से न्यास समिति के गठन हेतु 5-7 नामों की ऐसे व्यक्तियों की सूची मांगी गयी जो धार्मिक रूची के हों, जिनका किसी राजनीतिक दल से प्रतिबद्धता नहीं हो, जो आपराधिक पृष्ठभूमि के नहीं हो तथा धार्मिक न्यास की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभान्वित नहीं हो, जो अबतक अप्राप्त है।

चूंकि अस्थायी न्यासधारी का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अतः न्यास के प्रबंधन के लिए समिति का गठन आवश्यक है। अतः पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-809, दिनांक 13.09.2014 द्वारा निरूपित योजना के कार्यान्वयन के लिए सम्प्रति निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| (1) अनुमण्डल पदाधिकारी, कटिहार | — अध्यक्ष    |
| (2) श्री ओम प्रकाश महतो        | — सचिव       |
| (3) श्री नवीनचन्द्र गुप्ता     | — कोषाध्यक्ष |
| (4) श्री सुशील कुमार सिंहा     | — सदस्य      |
| (5) श्री विनोद कुमार सिंह      | — सदस्य      |

यह आदेश 01.03.2016 से प्रभावी होगा। भविष्य में जिला पदाधिकारी से नामों की सूची मिलने पर व्यापक प्रतिनिधित्व देने के लिए न्यास समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर इसका विस्तार किया जायेगा।

आदेश से,  
किशोर कुणाल  
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 20-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>